

### **प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 03-01-2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राधेश्याम राय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही---

आज दिनांक 03.01.2021 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम रात्रि गश्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, रोक थाम जुर्म जरायम में कस्बा पुरानी-नौगढ में मौजूद थी कि जरिए मुखबीर प्राप्त सूचना के आधार पर मधुबेनिया जूनियर हाईस्कूल के पास चोरी करने के उद्देश्य से पहुंचे तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से कड़ाई से पुछ-ताछ में करने पर पहले ने अपना नाम सलाउद्दीन उर्फ काले पुत्र सफी मोहम्मद निवासी ग्राम सेखवनिया थाना को0 सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर बताया जिसके पास से जामा तलाशी के दौरान एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नसीर पुत्र साहब अली निवासी ग्राम कोडरा ग्रान्ट, थाना को0 सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर बताया जिसके पास से एक अदद चाकू नाजायज एवं दाहिने हाथ में लिए झोला से दो अदद पिलास, एक अदद टार्च, एक अदद पंच लोहे का, एक अदद पेचकस, 02 अदद रिंच 10/11 एवं 13/14 नम्बर, एक अदद स्पेनर 12/13 नम्बर, एक अदद सलाई रिंच लोहे की 14 नम्बर, एक अदद लोहे का सरिया बरामद हुआ तथा तीसरे ने अपना नाम राजन उर्फ गब्बर पुत्र मुनिराज यादव उर्फ गाजे निवासी ग्राम कोडरा ग्रान्ट थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर बताया जिसके पास से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। मौके पर एक अदद मोटरसाइकिल UP55N-7483 पेशन प्रो बरामद हुआ। मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर नसीर उपरोक्त ने बताया कि मोटरसाइकिल मेरी है नियमानुसार अभियुक्तगण उपरोक्त को मय माल के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -05/2021 धारा -401 भादवि0 तथा मु0अ0सं0 -06, 07, 08/2021 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

#### **बरामदगी का विवरण-**

01-03 अदद नाजायज चाकू।

02- एक अदद झोला, दो अदद पिलास, एक अदद टार्च, एक अदद पंच लोहे, एक अदद पेचकस, 02 अदद रिंच 10/11 एवं 13/14 नम्बर, एक अदद स्पेनर 12/13 नम्बर, एक अदद सलाई रिंच लोहे की 14 नम्बर, एक अदद लोहे का सरिया।

3- एक अदद मोटरसाइकिल UP55N- 7483 पेशन प्रो।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता-**

**01-**सलाउद्दीन उर्फ काले पुत्र सफी मोहम्मद निवासी ग्राम सेखवनिया थाना को0 सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर।

**02-**नसीर पुत्र साहब अली निवासी ग्राम कोडरा ग्रान्ट, थाना को0 सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर।

**03-**राजन उर्फ गब्बर पुत्र मुनिराज यादव उर्फ गाजे निवासी ग्राम कोडरा ग्रान्ट थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर

#### **गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1- उ0नि0 श्री सभाजीत मिश्र चौकी प्रभारी पुरानी नौगढ, थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

2- उ0नि0 श्री हरेन्द्र नाथ राय चौकी प्रभारी जेल, थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

3- उ0नि0 श्री राकेश त्रिपाठी थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

4- उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

5- उ0नि0 श्री चन्दन थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

6- मुख्य आरक्षी चन्द्रभान राय थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

7- मुख्य आरक्षी दीनानाथ यादव थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

8- आरक्षी ओमवीर यादव थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

9- आरक्षी संजय चौहान थाना कोतवाली व जनपद सिद्धार्थनगर।

**02**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 03-01-2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 03.01.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ0नि0 रणजय सिंह मय टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को ग्राम महादेवा नानकार के पास से 35 शीशी अवैध नेपाली (कर्णाली) शराब के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 02/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

01- विष्णु पुत्र धमालू निवासी नीवी दोहनी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

01- उ.नि. रणजय सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

02- का. सत्येन्द्र यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

02- का. पवन यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

**03**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 03-01-2020**

**आज दिनांक 03/01/2021 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र नई किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 03/01/2021को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र /नई किरण का आयोजन किया गया । जिसमें कुल 10 पत्रावलियां विचारार्थ प्रस्तुत हुई तथा 08 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए । परामर्श के बाद 02 पत्रावलियों का सफल निस्तारण संभव हुआ । परामर्श के मुख्य परामर्शदाता, श्री समसुलहक का सराहनीय योगदान रहा । निस्तारण में श्रीमती मंजू सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना, श्रीमती पूनम मौर्या, उ.नि. महिला थाना, महिला मुख्य आरक्षी सरोज माला, महिला आरक्षी सविता सिंह, महिला आरक्षी कंचन सिंह, महिला आरक्षी अनुपम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

**निस्तारित पत्रावली का विवरण-**

1. सुनिता पत्नी शंभू निवासी रेहरा टोला रगड़गंज थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

2. राधा पत्नी दिनेश चौहान निवासी तालकुंडा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।